

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

पत्रांक- 83

दिनांक- 11-1-2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार, ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।

विषय :- योजना शीर्ष MMGSY NDB के अन्तर्गत आवंटन देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि MMGSY NDB योजना के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन देने की कृपा की जाय। आवंटन अधियाचना प्रमाण-पत्र, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0- यथोक्त।

AW
11.1.24

विश्वासभाजन,
[Signature]
11-01-24
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ
11/01/24

Format for Requisition of Allotment under MMGSY(NDB) पृष्ठ - 2											
Name of Division :- R.W.D. Works Division HATHUA				Name of Circle - R.W.D. Works Circle SIWAN							
SL. NO	Name of Scheme	Name of Agency	Length In K.M.	Agreement Amount (in Lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Up to date Exp.	Value of Measurement (in Lakh)	Additional Fund Required (in Lakh)	Physical Progress	Remarks
				Const.	Maintenance				Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lushi Motipur Pmgsy Road to Lamichaur	M/S Maa Ambey Construction.	2.100	187.72975	19.01790	73.25308	73.25308	186.55743	113.30435	Complete	
	Total		2.100					186.55743	113.30435		

[Signature]
D.A.O

RWD, Works Division, Hathua

[Signature]
11.01.24

Executive Engineer
RWD, Works Division, Hathua
[Signature]

FORM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (1) below Rule - 150)
 Form utilisation Certificate up to the month of Up to 31.12.2023
MUKHYA MANTRI GRAM SAMPARK YOJNA(NDB)

RWD Works Division - HATHUA

1	Head	Amount Received		Expenditure		Balance	
	MMGSY (NDB)	IN A/C-	0.00	IN A/C-	0.00	IN A/C-	0.00
		By CFMS-	297171670.00	By CFMS-	296867319.00	By CFMS-	304351.00
		Total-	297171670.00	Total-	296867319.00	Total-	304351.00
						Certified that sum of Rs 2968.67 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY (NDB) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 3.04 Lacs remaining utilized at the end of the period under.	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly

Kind of Checks exercised :-

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (iii) Construction material have been tested.
- (iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- (v) All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved :-

- (i) Construction of Road Works.
- (ii) Construction of CD Works

[Signature]
 11.1.24
 D.A.O

Rural Works Department
 Works Division Hathua

[Signature]
 11.01.24
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division Hathua
[Signature]
 11/01/24

Schedule XLV-Form No. 134
LUHSI MOTIPUR PMGSY ROAD LAMICHARUR

M/S MRA AMBEY CONSTRUCTION DIVISION

BLOCK-BHORE SUB-DIVISION

MMGSY-NIDB

MEASUREMENT BOOK

MB-NO-615

1.
 Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
1st or A/c Bill					
Name of work - Construction of a road					
from Lufi multipurpose Ambury					
Road to Lamichaur under					
(Ambury) NDB in Bhoray Block.					
Agency - M/S Mrs Ambey Construction					
Agreement No - 06/SB/2023-24					
Agreement Value - Rs 7,58,7080					
Date of work started - 21-07-2023					

Date of Completion - 20-07-2024

Date of measurement -

Record measurement
 (1.) Providing and fixing of working benchmark pillars and reserve pillars
 - do - do - etc

Length - 2.00 Km 2.000 Km

(2) clearing and grubbing road land - do - do - etc

$2 \times 60 \text{ Nos} \times 30 \times 3.40 + 3.60 = 12,600 \text{ m}^2$

$2 \times 6 \text{ Nos} \times 30 \times 3.60 + 3.50 = 12,780 \text{ m}^2$

Continuation

Continuation